

**@ Shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 29.12.2020**

**थाना सिंधौली ने किया सोनू हत्याकाण्ड का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुयी थी सोनू की हत्या ।**

दिनांक 27.12.2020 को मुकदमा श्री रामआसरे पुत्र रामलाल निवासी ग्राम आलमपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने पुत्र सोनू उम्र 18 वर्ष की अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध सचना दी थी । सूचना पर तत्काल थाना सिंधौली पर पंजीकृत मु0अ0स0 670/2020 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया ।

हत्या की इस घटना को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये ।

प्रभारी निरीक्षक सिंधौली जगनारायण पाण्डेयद्वारा गहनता से विवेचना करने पर दो अभियुक्त 1-अमन सिंह पुत्र दिनेश सिंह 2-मुकेश कुमार पुत्र गंगाराम निवासीगण ग्राम आलमपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया । जिन्हे दिनांक 29.12.2020 को मुखबिर की सूचना पर मुझ प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के अभियुक्त अमन सिंह पुत्र दिनेश सिंह 2-मुकेश कुमार पुत्र गंगाराम निवासीगण ग्राम आलमपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम वाजपुर चौराहे से समय 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया । **अभियुक्त की निशानदेही पर** आलाकत्ल (बाँका लोहा) तथा डण्डा के सम्बन्ध में बताया गया जिसे अभियुक्त की निशानदेही वाउम्मदगी पर अभियुक्तगण को निगरानी में लेकर अभियुक्तगण के बताये गये स्थान से हत्या में प्रयुक्त किये गये आलाकत्ल (बाँका लोहा) डण्डा को अभियुक्त द्वारा आगे –आगे चलकर बताये गये स्थान से गन्ने के खेत की पराली के नीचे से निकालकर दिया । बरमादगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

**अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त अमन ने बताया कि मृतक का मेरी बहन से प्रेम प्रसंग था । समाज में हमारी इज्जत धूमिल हो रही थी तब मैंने अपनी लोक लज्जा बचाने से अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर दिनांक 26.12.2020 की रात्रि में बाँका व डण्डे की मदद से सोनू की हत्या कर दी ।**

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1-अमन सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम आलमपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2-मुकेश कुमार पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम आलमपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

**बरामदगी का विवरण-**

मु0अ0स0 670/2020 धारा 302 भादवि में प्रयोग किया गया आलाकत्ल (बाँका लोहा )/डण्डा ।

**अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम -**

- 1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 2-उ0नि0नौबहार सिंह थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3- उ0नि0भारत सिंह थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 4-का0 741 राजकिशोर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 5-का0 1889 लवकेश कुमार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर ।